

**हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय**  
**सामान्य प्रशासन शाखा**

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष, 2014 की तृतीय नियमित बैठक की कार्यवाही, जो दिनांक 29 नवम्बर, 2014 को दोपहर 12-00 बजे आचार्य ए०डी०एन० वाजपेयी, कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सम्माननीय सदस्य उपस्थित हुए :—

- 1— आचार्य राजेन्द्र सिंह चौहान
- 2— डॉ० श्रीकान्त बाल्दी
- 3— श्री पी०सी० धीमान
- 4— डॉ० एस० एस० कौशल
- 5— प्रो० पी०एन० बंसल
- 6— श्री कृष्ण वैद्य
- 7— श्री इन्द्र दत्त लखनपाल
- 8— श्री चन्द्र शेखर
- 9— श्री बम्बर ठाकुर
- 11—श्री हरीश जनारथा
- 12—डॉ० अनुराग शर्मा
- 13—प्रो० एम०एल० झारटा

—कुलसचिव  
सदस्य—सचिव

**मद संख्य-1 :** कुलपति महोदय का वक्तव्य।

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2014 की तीसरी नियमित बैठक में मैं आप सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत् एवं अभिनन्दन् करता हूँ।

मैं कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य रहे चौधरी वरयाम सिंह बैन्स, प्रो.डी.सी.गौतम एवं डॉ.एस.सी. शर्मा प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, ढ़लियारा का धन्यवाद करता हूँ तथा उनके स्थान पर प्राचार्य कोटे से नए सदस्य बने प्रो.पी.एन.बन्सल, अधिष्ठाता प्रदर्शन एवं दृश्य कलाएं एवं डॉ.कृष्ण वैद्य, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, निहरी, मण्डी का स्वागत करता हूँ।

मैं यहां विशेष रूप से कार्यकारिणी परिषद् के सफल संचालन में गैर शिक्षक कर्मचारी चुनाव क्षेत्र से निर्वाचित होकर चौथी बार आए चौधरी वरयाम सिंह बैन्स का उल्लेख करना चाहूँगा। चौधरी वरयाम सिंह बैन्स

न केवल एक श्रेष्ठ श्रमिक एवं कर्मचारी नेता हैं बल्कि विश्वविद्यालय के अधिनियम, उपनियमों व नियमों की भी अच्छी जानकारी रखते हैं। चौथरी वरयाम सिंह बैंस इससे पूर्व भी इस कार्यकारिणी परिषद् के लगातार 2009, 2010 व 2011 में सदस्य रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे विश्वविद्यालय कोर्ट के भी तीन बार सदस्य रहे हैं। मैं सम्पूर्ण कार्यकारिणी परिषद् की ओर से चौथरी वरयाम सिंह बैन्स का आभार व्यक्त करता हूं।

सर्वप्रथम मैं कार्यकारिणी परिषद् के सम्माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा मुझे विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में पुनर्नियुक्ति दी गई है, जिसके लिए मैं महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एवं माननीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश श्री वीरभद्र सिंह जी का हृदय से आभारी हूं और मैंने इन्हें विश्वास दिलाया है कि इस विश्वविद्यालय को देश के प्रथम 10 विश्वविद्यालयों में लाने का भरसक प्रयास करूंगा।

इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रम, बैठकें, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित की गईः-

1. दिनांक 02.09.2014 को विभिन्न विभागों के अध्यक्षों, शोध संस्थानों के निदेशकों और अधिष्ठाताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में सभी विभागाध्यक्षों ने सुचारु रूप से कक्षाएं चलने तथा शैक्षणिक वातावरण होने की विस्तृत जानकारी दी और विभागाध्यक्षों ने बताया कि विश्वविद्यालय के सामान्य छात्र नियमित रूप से कक्षाओं में आ रहे हैं और अपनी कक्षाएं लगा रहे हैं।
2. दिनांक 04.09.2014 को राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अन्तर महाविद्यालय टेबल टेनिस प्रतियोगिता के समापन समारोह में विश्वविद्यालय की ओर से सम्मिलित हुआ।
3. दिनांक 05.09.2014 को विश्वविद्यालय में आयोजित '**शिक्षक दिवस**' के अवसर पर प्राध्यापकों को बधाई व शुभकामनाएं दी गई तथा वक्ताओं ने कहा कि अध्यापक अपना सम्मान स्वयं अर्जित करता है और क्योंकि अध्यापक का सम्मान उसके त्याग भावना पर आधारित रहता है तथा उसका व्यवहार कक्षा के बाहर समाज की आंखों में रहता है जिससे समाज की समझ में अध्यापक की एक प्रतिमा बनती है और उसी प्रतिमा को समाज आदर्श के रूप में अपनाता है।
4. दिनांक 08.09.2014 को अकादमिक स्टाफ कॉलेज में आपदा प्रबन्धन पर '**पुनर्शर्यां कार्यक्रम**' का शुभारम्भ हुआ।
5. दिनांक 10.09.2014 को विश्वविद्यालय प्रबन्धन स्कूल में कार्यरत आचार्य प्रमोद शर्मा द्वारा लिखित '**‘हिमाचल: द पैराडाइज़ आफ इंडिया’**' का विमोचन किया गया।
6. दिनांक 10.09.2014 को अकादमिक स्टाफ कॉलेज में आपदा प्रबन्धन पर पुनर्शर्यां कार्यक्रम में '**‘आध्यात्मिकता के आया’**' विषय पर विशेष व्याख्यान दिया।

7. दिनांक 12.09.2014 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थशास्त्र विभाग के साथ मिलकर '**वित्तीय समावेशन एवं रिजर्व बैंक की आर्थिक नीति**' के उपर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया। उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष मई मास में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन विश्वविद्यालय में आए थे व उन्होंने छात्रों के साथ विचार-विमर्श कर उनके प्रश्नों का समाधान किया था। विश्वविद्यालय के छात्रों की देश की मौद्रिक एवं आर्थिक विषयों में रुचि को देखते हुए उन्होंने चार सदस्यीय टीम विश्वविद्यालय के छात्रों और प्राध्यापकों से विचार विमर्श करने के लिए दिनांक 12.09.2014 को भेजी थी।
8. दिनांक 13.09.2014 को '**हिन्दी दिवस**' के उपलक्ष्य पर समारोह का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि हिन्दी हमारी दृष्टि है। हिन्दी का अपना एक इतिहास है, अपना भूगोल है, वर्तमान समय में हिन्दूस्तान को जोड़ना तथा हिन्दी बोलने से अधिक महत्वपूर्ण है हिन्दी में सोचना और अगर हम हिन्दी में सोचेंगे तो ही हम अपना सभी कार्य हिन्दी में कर सकेंगे। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रो. चन्द्रकला पाड़िया, अध्यक्ष, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान थीं।

9. दिनांक 14.09.2014 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर में ‘हिन्दी दिवस’ के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुआ।
10. दिनांक 17.09.2014 को विश्वविद्यालय के ‘विथि विभाग एवं ‘सार्वभौमिक शान्ति मण्डल प्रतिष्ठान’ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी: ‘शान्तिप्रिय राष्ट्र का निर्माण: हमारी साङ्गा ज़िम्मेदारियाँ’ विषय पर विशेष व्याख्यान दिया।
11. दिनांक 21.09.2014 को अजमेर, जयपुर (राजस्थान) में ‘आध्यात्मिकता और सृजनात्मकता’ विषय पर अन्तरराष्ट्रीय व्याख्यान माला के अन्तर्गत विशेष व्याख्यान दिया।
12. दिनांक 23.09.2014 को विश्वविद्यालय सभागार में ‘विश्व पर्यटन दिवस’ के अवसर पर पर्यटन प्रबन्धन विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया।
13. दिनांक 26.09.2014 को विश्वविद्यालय के पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की ‘परामर्श दात्री समिति’ की बैठक आयोजित की गई जिसमें पूरे वर्ष आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की गई।
14. दिनांक 27.09.2014 को ‘श्री अरबिन्दो सोसाइटी शिमला द्वारा आयोजित संगोष्ठी’ में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया।
15. दिनांक 30.09.2014 को विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क योजना के कार्यक्रम ‘गलड़’ से सम्बन्धित संगोष्ठी का शुभारम्भ हुआ।
16. दिनांक 02.10.2014 को सम्पूर्ण विश्वविद्यालय समुदाय- शिक्षक, गैर-शिक्षक कर्मचारियों और छात्रों ने मिलजुल कर ‘राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान’ आरम्भ किया। इस अवसर पर प्रशासनिक भवन के सामने स्वच्छता शपथ ग्रहण की तथा सभी उपस्थित प्राध्यापकों, गैर शिक्षक कर्मचारियों एवं छात्रों ने सफाई को दैनिक कार्य के रूप में अपनी डयूटी में शामिल करने व एक स्वच्छं वातावरण का निर्माण करने की शपथ ग्रहण की।
17. दिनांक 02.10.2014 को ही विश्वविद्यालय में गांधी अध्ययन केन्द्र तथा गांधी ग्लोबल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में ‘अन्तरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस’ के अवसर पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई।
18. दिनांक 14.10.2014 को पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला में आयोजित अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठी ‘21वीं सदी में उच्चतर शिक्षा और नागरिक समाज’ में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया।
19. दिनांक 15.10.2014 को शुलिनि विश्वविद्यालय, सोलन में इसके पांचवे ‘स्थापना दिवस’ के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया।
20. दिनांक 16.10.2014 को संगीत कला अकादमी एवं राज्य भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ‘राष्ट्रीय नृत्योत्सव’ का मुख्य अतिथि के रूप में गेयटी थियेटर में उद्घाटन किया।

21. दिनांक 16.10.2014 को ही विश्वविद्यालय में जैव प्रौद्योगिकी विभाग में आयोजित ‘कार्यशाला’ के समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
22. दिनांक 17.10.2014 को विश्वविद्यालय संगीत विभाग के शोधार्थी डॉ. मदन झालटा द्वारा विश्वविद्यालय पर तैयार किया गया वीडियो गीत ‘थूनिवर्सिटी रा नज़ारा’ का लोकार्पण किया।
23. दिनांक 17.10.2014 को ही विश्वविद्यालय मॉडल स्कूल के ‘वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह’ की अध्यक्षता की।
24. दिनांक 20.10.2014 को अकादमिक स्टाफ कॉलेज में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए दो दिवसीय ‘प्रशिक्षण कार्यक्रम’ आरम्भ किया गया।
25. दिनांक 20.10.2014 को ही भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में आयोजित द्वितीय ‘रविन्द्र नाथ टैगोर समृति व्याख्यान’ में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया।
26. दिनांक 29.10.2014 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित ‘राष्ट्रीय पत्रता परीक्षा ‘नेट’ के सम्बन्ध में नोयडा में आयोजित की गई कार्यशाला में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया।
27. दिनांक 02.11.2014 को हिमाचल प्रदेश लेखक एवं कलाकार संघ, शिमला द्वारा आयोजित अभिनन्दन कार्यक्रम’ की अध्यक्षता की एवं इस समारोह में सम्मानित किया गया।
28. दिनांक 03.11.2014 को ‘स्वीडन की कार्लस्टैड विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि मण्डल से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक और गहन शोध’ तथा उसके प्रचार-प्रसार एवं विस्तार की सम्भावनाओं पर विचार-विमर्श किया।
29. दिनांक 04.11.2014 को विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग द्वारा “संघनित पदार्थ भौतिकी” पर तीन दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इटली, इंगलैण्ड, जापान और कोरिया समेत विदेशी भौतिकी वैज्ञानिकों के अतिरिक्त भारतवर्ष से लगभग 250 प्रतिभागी भाग लिया। यह आयोजन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मन्त्रालय भारत सरकार, डी.आर.डी.ओ. जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से किया गया। इस सम्मेलन में जर्मनी के विख्यात वैज्ञानिक प्रो.क्रिस्टोफ लिनेत ने अपना मूल बीज भाषण संघनित पदार्थ भौतिकी पर दिया।
30. दिनांक 10.11.2014 को मुम्बई स्थित प्रतिष्ठित भाभा अणुशक्ति अनुसंधान केन्द्र के साथ भविष्य में शैक्षणिक आदान-प्रदान के लिए एक कार्यदल का शोध ही गठन हेतु एक उच्च स्तरीय बैठक की गई जिसमें इस महत्वपूर्ण संस्थान से कई विज्ञान के विषयों में प्रोजेक्ट प्राप्त कर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शोध और उसके विस्तार को बढ़ाने की योजना बनाई गई। इस बैठक में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित और कम्प्यूटर विज्ञान के प्राध्यापक भी शामिल हुए।

31. दिनांक 10.11.2014 को ही संस्कृति मन्त्रालय, भारत सरकार एवं विभाग लिलित कला अकादमी द्वारा देश के विभिन्न भागों से आमन्त्रित 'लघु वित्तकारों' की दस दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर विश्वविद्यालय का गेयटी थियेटर में प्रतिनिधित्व किया।
32. दिनांक 10.11.2014 को ही अधिष्ठाता अध्ययन के साथ 'गणित, रसायन विज्ञान और भौतिकी विज्ञान' के प्राध्यापकों की बैठक की अध्यक्षता की।
33. दिनांक 11.11.2014 को स्वतन्त्र भारत के 'पहले शिक्षा मन्त्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयन्ती' पर अम्बेडकर यूथ एडिफाइंग एसोसियेशन एवं विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में संगोष्ठी आयोजित की गई।
34. दिनांक 13.11.2014 को 'अभिव्यक्ति 2014' वार्षिक फोटोग्राफी प्रदर्शनी का शुभारम्भ पदमदेव परिसर द रिज पर आयोजित किया गया का उद्घाटन किया।

35. दिनांक 14.11.2014 को स्थानीय सैंट बीडस कॉलेज द्वारा ‘नैक’ से सम्बन्धित संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
36. दिनांक 14.11.2014 को ‘भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के 125वें जन्म दिवस’ पर अम्बेडकर यूथ एडिफाइंग एसोसियेशन एवं विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में संगोष्ठी आयोजित की गई।
37. दिनांक 17.11.2014 को अकादमिक स्टाफ कॉलेज में ‘पुनश्चर्या कार्यक्रम’ ‘मानवीय मूल्य और भारतीयता’ विषय पर आरम्भ हुआ।
38. दिनांक 17.11.2014 से 20.11.2014 तक ‘कुलपति के रूप में पुनर्नियुक्ति’ होने पर विश्वविद्यालय के सभी वैधानिक अधिकारियों, सभी प्रशासनिक अधिकारियों, अधिष्ठाताओं, विभागाध्यक्षों, शोध संस्थानों के निदेशकों, केन्द्रों के निदेशकों, हपुटा और हपुटवा के प्रतिनिधियों, गैर शिक्षक कर्मचारियों के चारों निर्वाचित संगठनों के प्रतिनिधियों और मनोनीत केन्द्रीय छात्र संघ के सदस्यों व पूर्व छात्र संघ के प्रतिनिधियों से विस्तृत विचार विमर्श किया।
39. दिनांक 20.11.2014 को ‘जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित’ कार्यशाला का उद्घाटन किया।
40. दिनांक 22.11.2014 को प्रबन्धन विज्ञान संस्थान खुशीपुर वाराणसी, उत्तर प्रदेश में ‘आध्यात्मिकता में नैतिक नेतृत्व और प्रबन्धन के मूलतत्व’ विषय पर आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में अध्यक्ष के रूप भाग लिया।
41. दिनांक 28.11.2014 को अकादमिक स्टाफ कॉलेज में ‘भानवीय मूल्य एवं परम्परा’ विषय पर एक विशेष व्याख्यान दिया।
42. विश्वविद्यालय में कार्यरत सहायक कुलसचिव (परीक्षा शाखा), श्री बाल कृष्ण शर्मा को एक फर्जी अंकतालिका बनाने के अपराध में शामिल होने के कारण दिनांक 24.11.2014 से निलम्बित कर दिया गया है।
43. एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान के शोध अधिकारी श्री कुलदीप सिंह द्वारा कुलसचिव पर अपमान-जनक शब्द के प्रयोग को लेकर लगाए गए आरोप व कुलसचिव के विरुद्ध दायर की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रकरण की समग्र जांच हेतु प्रति-कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।
44. विश्वविद्यालय में एक ‘भानव संसाधन व्यवन प्रकोष्ठ’ की स्थापना की गई है जिसका प्रमुख कार्य विश्वविद्यालय से बाहर की संस्थाओं/प्रदेश सरकार के अनुरोध पर उनके लिए प्रशनपत्रों का निर्माण, प्रश्न पत्रों का मुद्रण, परीक्षा करवाना एवं उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एवं लिखित तथा मौखिक साक्षात्कार आयोजित कर परिणाम घोषित करना सम्मिलित है। इस प्रकोष्ठ के मुख्य समन्वयक प्रो.एस.एस.नारटा, निदेशक, विश्वविद्यालय प्रबन्धन अध्ययन महाविद्यालय, आवा तॉज, शिमला-4 होंगे।

अब मैं विश्वविद्यालय के कुलसचिव से आग्रह करता हूं कि वे आज के लिए प्रस्तावित मदों को परिषद् के सम्मुख चर्चा एवं निर्णय के लिए प्रस्तुत करें।

**मद संख्या-2** कार्यकारिणी परिषद की पिछली बैठकों दिनांक 30-7-2014 तथा 26-8-2014 में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने पिछली बैठकों दिनांक 30-7-2014 तथा 26-8-2014 में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण किया ।

**मद संख्या -3 :** कार्यकारिणी परिषद की पिछली बैठकों दिनांक 30-7-2014 तथा 26-8-2014 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का अनुमोदित किया ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने पिछली बैठकों दिनांक 30-7-2014 तथा 26-8-2014 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई को अनुमोदित किया ।

**मद संख्या-4 :** कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-12 –सी (7) के अन्तर्गत लिए गए निर्णयों से अवगत करवाना ।

....

- i) Arresting on 21.11.2014 in a case FIRNo.224/2014 dated 21.11.2014 U/S 420, 467, 468, 471 , 120-B IPC P.S. West Shimla by the I/C P.P. S/Hill, West Shimla and is on police remand and the case is under investigation;

And whereas the said Shri Bal Krishan Sharma was remanded to the Police Custody by the Ld. Court upto 24.11.2014, thus exceeding forty eight hours;

Now, therefore, the said Shri Bal Krishan Sharma, is deemed to have been placed under suspension by the Vice-Chancellor in exercise of the powers vested in him under Section 12-C(7) of the Himachal Pradesh University Act of 1970 (as amended) with effect from the date of detention of the said Shri Bal Krishan Sharma i.e. the 21<sup>st</sup> November, 2014, in terms of sub-rule (2) of Rule 10 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, read with Ordinance 35.45 of the First Ordinances of the Himachal Pradesh University, 1973 (as amended) and shall remain under suspension until further orders(Order No.13-1(a)/2014-HPU(Estt.) Dt.24.11.2014)

It is further ordered that during the period that this order shall remain in force, the Headquarters of the said Shri Bal Krishan Sharma, Assistant Registrar shall be the Registrar Office, Himachal Pradesh University, Summer Hill, Shimla-5 and that Shri Bal Krishan Sharma shall not leave the Headquarter without obtaining the previous permission of the undersigned. And further, during the period that this order shall remain in force, the payment of subsistence allowance to Shri Bal Krishan Sharma, Assistant Registrar shall be regulated as per provisions of Ordinance 35.46 of the Ordinance ibid.

- ii) Promoting and appointing the officers/officials on regular basis on the recommendations of Recruitment & Promotion Committee in the meeting held on 05.09.2014 as per **annexure**.
- 

नोट कर अनुमोदित किया ।

.....

इसके अतिरिक्त कुलपति महोदय ने परिषद् को अवगत करवाया कि उन्होंने विकलांग अभ्यार्थियों के लिए परीक्षा देने के लिए अतिरिक्त समय देने व सहायक प्रदान करने के लिए एक समिति का गठन किया था जिसकी सिफारिशें अधिसूचना संख्या: 1-16 / 2009-हि0प्र0वि0(संचालन) दिनांक 25-11-2014 कार्यकारिणी परिषद् के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है ।

जिस पर चर्चा के उपरान्त परिषद् ने निर्णय लिया कि समिति द्वारा सुझाई गई सिफारिशों में कुछ कमियां हैं अतः इसमें माननीय न्यायालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों/निर्देशों के अनुसार संशोधन कर कार्यान्वित किया जाये ।

कुलपति महोदय ने परिषद् को यह भी अवगत करवाया कि उन्होंने एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान में कार्यरत श्री कुलदीप सिंह, अनुसंधान अधिकारी को नशे की हालत में उनके वाहन को टक्कर मारने और विश्वविद्यालय परिसर में हुड्डंग मचाने के सन्दर्भ में स्पष्टीकरण मांगा था लेकिन श्री कुलदीप सिंह द्वारा सौपा गया स्पष्टीकरण सन्तोषजनक न पाये जाने के कारण उन्हें विश्वविद्यालय से आदेश संख्या: 13-9 / 87-हि0प्र0वि0(स्था0) भाग-III-8773-77 दिनांक 22-11-2013 को निलंबित किया गया । जिसे कार्यकारिणी परिषद् ने नोट कर अनुमोदित किया ।

**मद संख्या –5 :** कार्यकारिणी परिषद के सम्माननीय सदस्यों से यदि कोई मद प्राप्त हुई है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने सम्माननीय सदस्य श्री बम्बर ठाकुर जी से कम्प्यूटर विज्ञान विभाग में कार्यरत प्रयोगशाला परिचरों के नियमितीकरण बारे प्राप्त हुई मद का शीघ्र परीक्षण कर इसे वित्त समिति की आगामी बैठक के समक्ष रखने का निर्णय लिया ।

**मद संख्या–6:** राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी आदेश F.No.89-746/2013-Appeal/5<sup>th</sup> Meeting -2014-A 88703 दिनांक 06–06–2014 से ब्लूम शिक्षा महाविद्यालय की मान्यता के withdrawal आदेश दिनांक 25–9–2013 व कार्यकारिणी परिषद् की बैठक दिनांक 30–12–2013 में मद संख्या–10 में अध्यादेश के अध्याय 38.18 के अनुसार चालू सत्र 2013–2014 से सम्बद्धता समाप्त करने का निर्णय लिया गया था जिस पर महाविद्यालय द्वारा अपील दायर की गई तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी आदेश F.No.89-746/2013-Appeal/5<sup>th</sup> Meeting -2014-A 88703 दिनांक 06–06–2014 में withdrawal आदेश दिनांक 25–9–2013 को स्थगित किया है अतः मामला कार्यकारिणी परिषद् के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ एवं आगामी आदेशों हेतु प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने निर्णय लिया कि ब्लूम शिक्षा महाविद्यालय की मान्यता के withdrawal आदेश पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाये । परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि भविष्य में भी किसी महाविद्यालय की

मान्यता को समाप्त करने या जारी रखने के सन्दर्भ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाये ।

**मद संख्या–7:** कार्यकारिणी परिषद् की बैठक दिनांक 30–12–2013 की मद संख्या–9 के अन्तर्गत लिए गए निर्णयानुसार चतुर्थ श्रेणी से लिपिक के पद पर पदोन्नत श्री भगत राम चौहान को F.R. 26 के प्रावधान के अन्तर्गत 45 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर टंकण परीक्षा पास करने में छूट प्रदान करने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ हेतु ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने विस्तार से चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया कि परिषद् की दिनांक 30-12-2013 को हुई बैठक में मद संख्या-9 के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी से लिपिक के पद पर पदोन्नत किये श्री भगत राम चौहान और नरेन्द्र कुमार के मामले का प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पुनः परीक्षण कर इसे पूर्ण तथ्यों के साथ अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

**मद संख्या-8:** हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वित्त समिति की सिफारिशों को कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाता है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने वित्त समिति की दिनांक 14-08-2014 को हुई बैठक की सिफारिशों को संलग्नक के अनुरूप अनुमोदित किया ।

**मद संख्या-9:** कार्यकारिणी परिषद् द्वारा दिनांक 30-7-2014 को हुई बैठक में यथा-स्थान की गई चर्चा पर लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश सरकार से प्राप्त पत्र संख्या: EDN-A-Ga(10)-2/2011-Loose दिनांक 24-6-2014 के सन्दर्भ में दिये गये उत्तर का विवरण परिषद् के अवलोकन हेतु प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने निर्णय लिया कि सभी वित्तीय मामलों की सूची तैयार कर इन्हें पूर्ण तथ्यों के साथ वित्त समिति के समक्ष रखा जाये ।

**मद संख्या-10:** कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग फैकलटी रिचार्ज प्रोग्राम के अन्तर्गत सहायक आचार्यों, सह-आचार्यों के लिए कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की सिफारिशें जिसकी बैठक समिति कक्ष में दिनांक 1-8-2014 को हई । जिसकी कार्यवाही अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने निर्णय लिया कि मामले को पूर्ण तथ्यों के साथ अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

**मद संख्या-11:** विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-37 के प्रावधान के अनुसार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ व अनुमोदन हेतु ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा—37 के प्रावधान के अनुसार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012—2013 को विश्वविद्यालय कोर्ट के समक्ष रखने हेतु अनुमोदित किया ।

**मद संख्या—12:** कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष श्री पुनीत राजटा, अधिवक्ता एवं विश्वविद्यालय कानूनी सलाहकार के त्यागपत्र को स्वीकार करने के उपरान्त मामला कार्यकारिणी परिषद् के सूचनार्थ एवं पुष्टिकरण हेतु प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने श्री पुनीत राजटा, अधिवक्ता एवं विश्वविद्यालय कानूनी सलाहकार के त्यागपत्र को स्वीकृत कर इसका पुष्टिकरण किया ।

कुलसचिव ने कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष प्रदेश सरकार के विधि विभाग से प्राप्त पत्र संख्या: एलएलआर—ई(9)1/2013 दिनांक 18—10—2014 एवं दिनांक 31—10—2014 जिसमें क्रमशः सर्वश्री देवेन्द्र कुमार शर्मा और अदम्य सिंह राठौर को विश्वविद्यालय कानूनी सलाहकार के पद पर नियुक्त करने के निर्देश दिये गये हैं का मामला भी रखा । जिस पर परिषद् ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अपने स्तर पर प्रदेश सरकार से पत्राचार कर यह सुनिश्चित कर ले कि विश्वविद्यालय को अतिरिक्त अधिवक्ताओं की आवश्यकता है या नहीं ?

इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी परिषद् में विश्वविद्यालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में नियुक्त श्री जिया लाल भारद्वाज की रिटेनर्शिप और प्रति मामला शुल्क बृद्धि पर भी चर्चा की और इस विषय पर परिषद् को अवगत करवाया गया कि रिटेनर्शिप और प्रति मुकदमा फीस शुल्क बृद्धि का मामला पहले से ही वित्त समिति के समक्ष विचाराधीन है ।

**मद संख्या—13:** कार्यकारिणी परिषद् से विश्वविद्यालय के शिक्षकों के सेवा—निवृत्ति की 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरान्त प्रशासनिक कार्य की सुपुर्दगी न किये जाने के सन्दर्भ में पूर्व में कार्यकारिणी परिषद् की बैठक दिनांक 15—12—2001 की मद संख्या—17 के अंतर्गत लिये गये निर्णय के अनुरूप परामर्श—दात्री संस्थाओं जैसे कि बोर्ड ऑफ स्टडीज/संकाय इत्यादि में सदस्यता दी जा सकती है या नहीं पर परिषद् के मार्गदर्शन व निर्णय हेतु ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने स्पष्टीकरण दिया कि सेवानिवृत्त प्राध्यापक पूर्व की भाँति 30 जून अर्थात् शैक्षणिक सत्र तक परामर्श-दात्री संस्थाओं जैसे बोर्ड ऑफ स्टडीज/संकाय के सदस्य बने रहेंगे ।

**मद संख्या-14:** विश्वविद्यालय में सुदृढ़ तबादला नीति बनाने हेतु गठित की गई समिति द्वारा दिनांक 14-07-2014 को सौंपी गई सिफारिशों को कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय में तबादला नीति बनाने हेतु गठित की गई समिति की सिफारिशों पर चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में तवादला नीति बनाने के लिए कर्मचारियों/कर्मचारी संगठनों के सुझाव लिये जायें और मामले को इन सुझावों सहित परिषद् के समक्ष रखा जाये ।

**मद संख्या-15:** दिनांक 30-1-2014 को हुई कार्यकारिणी परिषद् की बैठक में मद संख्या-12 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में सहायक कुलसचिव और अनुभाग अधिकारियों के वेतनमानों में विसंगति दूर करने हेतु अधिसूचना संख्या:1-78 / 94-हि0प्र0वि0- (सा0) दिनांक 20-2-2014 के अन्तर्गत गठित समिति की सिफारिशें 22-9-2014 सायं 2-30 बजे हुई बैठक की कार्यवाही कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष रखने बारे ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने सहायक कुलसचिव और अनुभाग अधिकारियों के वेतनमानों में आई वेतन विसंगति के मामले को वित्त समिति को प्रेषित करने का निर्णय लिया ।

**मद संख्या-16-** कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 2 सीटें Supernumerary श्रेणी के अन्तर्गत सृजन करने बारे मामला अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाता है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने निर्णय लिया कि मामले को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 के पत्र सहित पूर्ण ब्यारे के साथ परिषद् की अगली बैठक में रखा जाये ।

**मद संख्या-17:** राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी आदेश F.No.89-245/2013-Appeal/7<sup>th</sup> Meeting -2014-A 87445 दिनांक 07-05-2014 में ठाकुर महाविद्यालय की मान्यता को withdrawal आदेश दिनांक 29-12-2012 व

कार्यकारिणी परिषद् की बैठक में दिनांक 30–12–2013 में मद संख्या—15 में अध्यादेश 38.18 के अनुसार चालू सत्र 2013–2014 से सम्बद्धता समाप्त करने का निर्णय लिया गया था जिस पर महाविद्यालय द्वारा अपील दायर की गई तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी आदेश F.No.89-245/2013-Appeal/7<sup>th</sup> Meeting -2014-A 87445 दिनांक 07–05–2014 को रथगित किया है अतः मामला कार्यकारिणी परिषद् के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ एवं आगामी आदेश हेतु प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने निर्णय लिया कि ठाकुर शिक्षा महाविद्यालय की एम.एड. की मान्यता के withdrawal आदेश पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाये। परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि भविष्य में भी किसी महाविद्यालय

की मान्यता को समाप्त करने या जारी रखने के सन्दर्भ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाये ।

**मद संख्या—18:** अन्तर्राष्ट्रीय दूरवती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र (ICDEOL) में व्यवसाय प्रबन्धन निष्णांत (MBA) में शैक्षणिक सत्र 2014–2015 से 100 अतिरिक्त सीटें बढ़ाने बारे माननीय कुलपति महोदय के संस्तुति उपरान्त मद कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने अन्तर्राष्ट्रीय दूरवती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र (ICDEOL) में व्यवसाय प्रबन्धन निष्णांत (MBA) में शैक्षणिक सत्र 2014–2015 से 100 अतिरिक्त सीटें (200 से 300) बढ़ाने बारे माननीय कुलपति महोदय द्वारा की गई संस्तुति को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की ।

**मद संख्या—19:** जीवनवृत्त उन्नति योजना के अन्तर्गत आचार्य के पद पर की गई पदोन्नति की तिथि में संशोधन के लिए प्रकरण को कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ रखने हेतु ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने निर्णय लिया कि मामले को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों (Guidelines) के साथ पूर्ण ब्यौरे सहित परिषद् की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

**मद संख्या-20:** कुलपति महोदय द्वारा मैस हैल्पर के पद पर भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाने हेतु गठित समिति द्वारा दिनांक 20-8-2014 को प्रदान की गई सिफारिशें कार्यकारिणी परिषद् की अनुमति हेतु प्रस्तुत हैं ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मामले को पूर्ण तथ्यों के साथ वित्त समिति को प्रेषित करने का निर्णय लिया ।

**मद संख्या-21:** दिनांक 28-09-2013 को हुई कार्यकारिणी परिषद् की बैठक में अन्य मद के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में पदोन्नतियां/कमोन्नतियां करने के लिए अधिसूचना संख्या: 1-78 / 94-हि0प्र0वि0(सा0)खण्ड-5 दिनांक 17-10-2013 के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 26-8-2014 प्रातः 11.00 बजे हुई बैठक की कार्यवाही कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष रखने बारे ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मामले को वित्त समिति को प्रेषित करने का निर्णय लिया ।

**मद संख्या-22:** कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् की दिनांक 30-8-2007 की बैठक की मद संख्या-10 के अनुसार स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत 2 Pharmacist, 1 Laboratory Technician and 1 Staff Nurse को Chief Pharmacist, Chief Laboratory Technician and Ward Sister के पदों पर re-designate के स्थान पर re-designate upgrade/re-designate दर्शा कर संशोधन करने बारे ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मामले को वित्त समिति को प्रेषित करने का निर्णय लिया ।

**मद संख्या-23:** अधिसूचना संख्या:1-78 / 94-हि0प्र0वि0-(सा0)भाग-5 दिनांक 8-4-2013 द्वारा गठित समिति की दिनांक 26-8-2014 की बैठक की कार्यवाही/सिफारिशें कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ, विचारार्थ एवं आगामी आदेशार्थ प्रस्तुत करने बारे ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने निर्णय लिया कि मामले को निम्नलिखित ब्यौरे के साथ वित्त समिति के समक्ष रखा जाये :—

- 1) विभिन्न प्रोजैक्टों/स्कीमों में नियुक्त कर्मचारियों को किस आधार पर और कैसे नियुक्त किया गया,
- 2) इनका वेतन किस निधि से प्रदान किया जा रहा है,
- 3) नियुक्त कर्मचारी इन प्रोजैक्टों/स्कीमों में कितने समय से कार्य कर रहे हैं,
- 4) इन प्रोजैक्टों/स्कीमों में नियुक्त कर्मचारियों को क्या वेतनमान प्रदान किया जा रहा है ?

**मद संख्या-24:** शैक्षणिक परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 29-09-2014 को अनुमोदित मद संख्या-13 व यथा-स्थान प्रस्तुत मद संख्या-2 में प्रस्तावित संशोधन कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने शैक्षणिक परिषद् की स्थायी समिति की दिनांक 29-09-2014 को हुई बैठक में मद संख्या-13 व यथा-स्थान मद संख्या-2 में प्रस्तावित संशोधनों को **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया ।

**मद संख्या-25:** कुलपति द्वारा गठित समिति पर आयोजित बैठक दिनांक 15-9-2014 की सिफारिशों को कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचार एवं अनुमोदन हेतु ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मामले को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्ण तथ्यों के साथ परिषद् की अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया । तथा यदि किसी अन्य विश्वविद्यालय में इस प्रकार की छूट दी गई है, उसे भी प्रस्तुत किया जाये ।

इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी परिषद् ने सुश्री निशा चौहान का हिन्दी विभाग में पीएच.डी. में पुनः पंजीकरण करने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया ।

**मद संख्या-26:** State Bank of India or any scheduled bank के साथ H.P. State Cooperative Bank Ltd. शब्द हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लेखा संहिता में सम्मिलित करने बारे ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने State Bank of India or any scheduled bank के साथ H.P. State Cooperative Bank Ltd. शब्द हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लेखा संहिता में सम्मिलित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

**मद संख्या-27:** कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विभिन्न परीक्षाओं के संचालन हेतु नियुक्त किए जाने वाले केन्द्र अधीक्षकों एवं उप केन्द्र अधीक्षकों का सेवाकाल वर्तमान नियमों में संशोधन करते हुए 8 साल एवं 4 साल जो कि कमशः 10 साल एवं 5 साल था किया जाना प्रस्तावित है । यह सेवाकाल नियमित अथवा लोक सेवा आयोग के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर नियुक्त कार्यकाल ही मान्य होगा इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अन्य सिफारिशों भी अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत हैं ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मामले में गठित समिति की सिफारिशों को संलग्नक के अनुरूप अनुमोदित किया ।

**मद संख्या-28:** नामावली परिवर्तन (Change of nomenclature) एम.ए./एम.एस.सी. (M.A./M.Sc.) गणित से एम.एस.सी. गणित करने हेतु ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मामले को सम्बन्धित निकायों के माध्यम से शैक्षणिक परिषद् एवं कार्यकारिणी परिषद् को प्रेषित करने का निर्णय लिया ।

**मद संख्या-29:** बी.टैक. सावतें सत्र दिसम्बर, 2013 के अनुसार जो Revised दुबारा मूल्यांकन परीक्षा परिणाम जो माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार निकाला गया है इसे कार्यकारिणी परिषद् में कार्योत्तर स्वीकृति हेतु भेजने के सन्दर्भ में ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने बी.टैक. के सावतें सत्र (दिसम्बर, 2013) के संशोधित पुनः मूल्यांकन के परीक्षा परिणाम को घोषित करने को अपनी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की ।

**मद संख्या-30:** सचिव (लोक निर्माण), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या:1-70 / 70-पीडब्ल्यूडी दिनांक 17-3-1997 व 1-70 / 70-पीडब्ल्यूडी दिनांक 15-3-2005 जिसमें अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के भर्ती एवं पदोन्नति नियम नियम बनाए गए हैं तथा संशोधन किया किया गया है को कार्यकारिणी परिषद् की अनुमति हेतु ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मद पर चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया कि प्रदेश सरकार से अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के नवीनतम भर्ती एवं पदोन्नति नियम प्राप्त कर मामले को पूर्ण तथ्यों के साथ पुनः परिषद् के समक्ष रखा जाये ।

**मद संख्या-31:** हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अन्तर्राष्ट्रीय दूरवती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र नोएडा, उत्तर प्रदेश के आय और व्यय का ब्यौरा कार्यकारिणी परिषद् के सूचनार्थ प्रस्तुत है ।

.....

मद पर विचार नहीं किया जा सका (Item could not be taken up) ।

**मद संख्या-32:** कार्यकारिणी परिषद् की बैठक दिनांक 30-12-2.13 में मद संख्या-11 के अन्तर्गत लिए गए निर्णय को अधिसूचित करने के लिए मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।

.....

मद पर विचार नहीं किया जा सका (Item could not be taken up) ।

**मद संख्या-33:** कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष 26-01-2015 गणतन्त्र दिवस में भाग लेने वाले एन.सी.सी. विद्यार्थियों की परीक्षाएं 26-01-2015 के बाद करवाने हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने एन.सी.सी. विद्यार्थियों जो 26 जनवरी, 2015 (गणतन्त्र दिवस)की परेड में भाग ले रहे हैं की विशेष परीक्षाएं 26-01-2015 के उपरान्त शिमला में स्थापित परीक्षा केन्द्र में आयोजित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

**मद संख्या-34:** कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष सभी पी.एच.डी. उपाधि धारक अभ्यार्थी सहायक आचार्य पद के लिए NET/SET की शर्त से छूट देने के बारे ।

.....

मद पर विचार नहीं किया जा सका (Item could not be taken up) ।

**मद संख्या-35:** रत्न, प्रभाकर, शास्त्री व आचार्य की परीक्षा शुल्क बृद्धि की शुद्धि जो माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार की गई कार्यकारिणी परिषद् में कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।

.....

मद पर विचार नहीं किया जा सका (Item could not be taken up) ।

**मद संख्या—36:** माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार की गई सम्बन्धित परीक्षा शुल्क वृद्धि कार्यकारिणी परिषद् में कार्योत्तर स्वीकृति हेतु ।

....

मद पर विचार नहीं किया जा सका (Item could not be taken up) ।

बैठक के अन्त में कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि वित्तीय मामले जैसे पदों का सृजन, क्रमोन्नति, वेतनमान संशोधन तथा वेतन विसंगतियां इत्यादि और शैक्षणिक मामले क्रमशः वित्त समिति व शैक्षणिक परिषद् के समक्ष रखे जायें ताकि कार्यकारिणी परिषद् इन द्वारा प्रस्तुत की गयी सिफारिशों पर उचित निर्णय ले सके ।

अन्त में बैठक पीठ को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई ।

हस्तां/—

(आचार्य मोहन झारटा)  
कुलसचिव  
सदस्य—सचिव

पुष्टिकरण

हस्तां/—  
(आचार्य ए.डी.एन. बाजपेयी)  
सभापति / कुलपति